



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1937 (श10)

(सं0 पटना 1278) पटना, शुक्रवार, 20 नवम्बर 2015

सं० 01-सं०प्रा०(स्था०)-16/2015-1552

l puk i ko\$kdh foHkx

l dYi

9 uoEcj 2015

fo"K; %& l fonk ij l Hkh fu; k\$tr MkVh bUVh vKwJ\$J@dk; i kyd l gk; d@vkbãVhã l gk; d@vkbãVhã e\$ustj dh l ok vof/k ds nk\$ku eR; q ij muds fudVre vkfJr dks ₹ 4,00,000.00 %pkj yk[k½ ek= vuqg vupku dh jkf'k inku fd; s tkus dh Lohdfr ds l c\$tk e\$

[Reg. - ₹ 4,00,000.00 (Rupees Four Lakh) only Ex-gratia grant is to be sanctioned for Contractual basis Employee's dependent during service period death of Data Entry Operator/Executive Assistance/ I.T. Assistant & I.T. Manager.]

राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित एवं संविदा पर नियोजित कर्मियों को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2. उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी करने के अवसर पर विभिन्न घोषणाएँ की गईं, जिसमें से नियोजित कर्मियों के लिये भी अतिमहत्वपूर्ण घोषणा थी।

3. उक्त घोषणा के अनुसार "l Hkh fu; k\$tr f'k(kd] Vky l od] f'k(kk Lo; i oh] vk'kk dk; i dUkkj eer] vk\$KuckMh l fodk@l gkf; dk] fo|ky; ds j l kbz k] vuqg ij dk; j r duh; @l gk; d vfhk; rk , oa fpdRI d] fdl ku l ykgdkj@d'k l ello; d@MkVh bUVh vKwJ\$J@dk; i kyd l gk; d@vkbãVhã e\$ustj dh l ok vof/k ds nk\$ku eR; q ij muds fudVre vkfJr dks ₹ 4,00,000.00 %pkj yk[k½ ek= vuqg vupku dh jkf'k nh tk; xhA"

4. चूंकि संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक /आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

5. अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष- मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष- 0027-सूचना प्रावैधिकी

विभाग, विपत्र कोड-N-3451000900027, विषय शीर्ष-31 02-अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत प्रावधानित की जानी वाली राशि से किया जायेगा।

6. यह योजना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किये गये घोषणा की तिथि यानि दिनांक 27.07.2015 से प्रभावी होगी।

7. उक्त संकल्प को दिनांक 22.08.2015 को मद् संख्या-43 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-1253 दिनांक 24.08.2015 को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।

vkns'k %& vkns'k fn;k tkrk gS fd bl l dyi dks jkt dli; jkti= ds vl k/kkj.k v d ea i dlf'kr fd;k tk; vkj bl dh ifr l lkh folkkx@folkkxk/; {k@ieMyh; vk; Pr@ ftykf/kdljh@ vuqMykf/kdljh dks l ipuk , oa vko'; d dkj bkbZ grqHksth tk; A

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० एस० सिद्धार्थ, सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1278-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>